



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 376]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 29, 2019/माघ 9, 1940

No. 376]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 29, 2019/MAGHA 9, 1940

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2019

**का.आ. 489(अ).**—जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) (जिसे इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 01 सितंबर, 2010 की अधिसूचना संख्या का. आ. 2153(अ.) के तहत चंडीगढ़ स्थित वरिष्ठतम अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय, को उक्त अधिनियम की धारा-11 की उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया था जिसका अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए संपूर्ण चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र पर क्षेत्राधिकार है;

और जबकि, डॉ. गगन गीत कौर, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश, सीबीआई न्यायालय, चंडीगढ़ जिन्हें भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 12 जुलाई, 2018 की अधिसूचना सं. का. आ. 3427(अ.) के तहत उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, का स्थानांतरण कर दिया गया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय अन्वेषण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा-11 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 12 जुलाई, 2018 की अधिसूचना संख्या का. आ. 3427(अ.) का अधिक्रमण करते हुए, सिवाय उन कार्यों के जो ऐसे अधिक्रमण के पूर्व पूरे कर लिए गए थे अथवा जिनका लोप कर दिया गया था, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ के माननीय प्रधान न्यायमूर्ति की सिफारिश पर एतद्द्वारा श्री संजीव जोशी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश, सीबीआई न्यायालय, चंडीगढ़ को उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 11011/02/2019/एनआईए]

पीयूष गोयल, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 25<sup>th</sup> January, 2019

**S.O. 489(E).**—Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the National Investigation Act, 2008 (34 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government had, *vide* notification number S.O. 2153 (E) dated the 1<sup>st</sup> September, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), notified the Court of Senior Most Additional Sessions Judge at Chandigarh, as the Special Court for the purposes of sub-section (1) of section 11 of the said Act having jurisdiction throughout the Union Territory of Chandigarh for the trial of Scheduled Offences;

And whereas, Dr. Gagan Geet Kaur, Additional District & Sessions Judge, Special Judge, CBI Court, Chandigarh, who was appointed as the Judge to preside over the said Special Court *vide* notification number S.O. 3427 (E) dated the 12<sup>th</sup> July, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), has been transferred;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 11 of the National Investigation Act, 2008 (34 of 2008) and in supersession of the notification number S.O. 3427 (E), dated the 12<sup>th</sup> July, 2018, except in respect of things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, on the recommendation of the Hon'ble Chief Justice, Punjab & Haryana High Court, Chandigarh, hereby appoints Sh. Sanjiv Joshi, Additional District & Sessions Judge, Special Judge, CBI Court, Chandigarh, as the Judge to preside over the said Special Court.

[F. No. 11011/02/2019/NIA]

PIYUSH GOYAL, Jt. Secy.